

भारत का राजपत्र The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 12, 1970/आग्रहायण 21, 1892

No 204] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12, 1970/AGRAHAYANA 21, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है, जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 5th December 1970

G.S.R. 1988.—Whereas sub-section (1) of section 55 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), provides that any tax on the consumption or sale of electricity relatable to entry 53 in the State List in the Seventh Schedule to the Constitution, and any tax on the sale or purchase of goods relatable to entry 54 in the said List levied by the Government of Assam shall be collected within Meghalaya, but not including within the municipality of Shillong by the Government of Meghalaya; and whereas any such tax leviable within Meghalaya shall not form part of the consolidated fund of Assam, but shall form part of the consolidated fund of Meghalaya;

And whereas the laws with respect to the taxes referred to above shall have effect subject to such exceptions and modifications as the Central Government may, by order, specify for the purpose of giving effect to the provisions of the said sub-section (1) of section 55;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the said section 55, the Central Government hereby makes the following order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Assam Taxation Laws (Meghalaya) Modifications Order, 1970.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 2nd day of April, 1970.

2. The Assam Laws mentioned in the Schedule appended to this Order as in force in the whole or any part of the autonomous State of Meghalaya shall for

the purposes of giving effect to sub-section (1) of section 55 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969, (55 of 1969), have effect subject to the exceptions and modifications directed by the said Schedule.

3. The provisions of this Order which have the effect of modifying the aforesaid Assam laws so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 2nd April, 1970 and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or thing may be revoked, varied or undone in the like manner, to the extent and in the circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and under and in accordance with the provision then applicable to such a case.

4. Nothing in this Order shall affect the previous operation of, or anything duly done or suffered under the aforesaid Assam laws or any right, privilege, obligation or liability, already acquired, accrued or incurred under such laws or any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence already committed against such laws.

THE SCHEDULE

(See paragraph 2)

Modifications

A—General

Whenever an expression mentioned in column 1 of the Table below occurs (otherwise than in a title or preamble or in a citation or description) in the Assam Sales Tax Act, 1947 (Assam Act 17 of 1947), the Assam (Sales of Petroleum and Petroleum Products, including Motor Spirit and Lubricants) Taxation Act, 1955 (Assam Act 9 of 1956), the Assam Finance (Sales Tax) Act, 1956 (Assam Act 11 of 1956), the Assam Electricity Duty Act, 1964, (Assam Act 30 of 1964) and the Assam Purchase Tax Act, 1967 (Assam Act 19 of 1967), or in the rules, orders and notifications made thereunder as in force in the whole or any part of the autonomous State of Meghalaya, then, unless that expression is by this Order expressly directed to be otherwise modified, or to stand unmodified, or to be omitted or unless the context otherwise requires, it shall be construed as a reference to the expression set opposite to it in column 2 of the said Table.

TABLE

(1)	(2)
Assam (except where it occurs in the expressions "Government of Assam", "Governor of Assam", "Assam Finance Acts" and "State of Assam").	Meghalaya.
Government of Assam.	Government of Meghalaya.
Government of Assam.	Governor of Assam exercising his functions as Governor in relation to Meghalaya.
State of Assam.	Autonomous State of Meghalaya.
State Government	Government of Meghalaya.
State (except where it occurs in the expressions "State Government", "Inter-State" and "State of Assam").	Autonomous State of Meghalaya.

B—Special*The Assam Sales Tax Act, 1947 (Assam Act 17 of 1947)*

1. **Section 2.**—(1) For clause (1A), the following clause shall be substituted, namely:—

“(1A) ‘Board’ means the Board of Sales Tax as constituted by the Government of Meghalaya.”.

(2) In clause (6), the words “State Government” shall stand unmodified.

2. **Section 3.**—(1) sub-section (1), (2), (5) and (6), the words “wholly in Assam or both in and outside Assam” shall stand unmodified.

(2) In clause (i) of sub-section (4) and in the Explanation under that sub-section, the words “State of Assam” shall stand unmodified.

3. **Section 4.**—In sub-section (2), the words “State Government” shall stand unmodified.

4. **Section 7.**—In sub-section (2), the words “State Government” shall stand unmodified.

5. **Section 15.**—In item (i) (a) of sub-clause (b) of clause (1), the references to “State” shall stand unmodified.

6. **Section 27.**—The word “State” shall stand unmodified.

7. **Section 30.**—For sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) Any dealer objecting to an order passed under this Act by any person appointed under section 8 to assist the Commissioner, other than an order passed under this section, may, within thirty days from the date of service of such order, appeal to the Commissioner, against such order:

Provided that no appeal against an order of assessment or penalty shall be entertained by the Commissioner unless he is satisfied that the amount of tax assessed or penalty levied, if not otherwise directed by him, has been paid:

Provided further that the Commissioner before whom the appeal is filed may admit it after the expiration of thirty days, if he is satisfied that for reasons beyond the control of the appellant or for any other sufficient cause it could not be filed within time.”.

8. **Section 31.**—For section 31, the following section shall be substituted, namely:—

Revision by the Board.—“31. The Board may call for and examine the record of any proceeding under this Act, and if it considers that any order passed therein by any person appointed under section 8, is erroneous in so far as it is prejudicial to the interests of the revenue, it may, after giving the dealer an opportunity of being heard and after making or causing to be made such enquiry as it deems necessary, pass such orders thereon as the circumstances of the case justify, including an order enhancing or modifying the assessment, or cancelling the assessment and directing a fresh assessment.”.

9. **Section 31A.**—In sub-section (1), the words, brackets and figures “or passed in revision under sub-section (1) of section 31” shall be omitted.

10. **Section 42.**—In clause (c) of sub-section (3), the words “this or any other State Government” shall stand unmodified.

11. **Section 44B.**—In sub-section (1), the references to “State Government” shall stand unmodified.

12. **Section 52.**—The references to “State Government” shall stand unmodified.

The Assam (Sales of Petroleum and Petroleum Products, Including Motor Spirit and Lubricants) Taxation Act, 1956 (Assam Act 9 of 1956).

1. Section 2.—(1) For clause (1) the following clause shall be substituted, namely:—

(1) 'Board' means the Board of Sales Tax as constituted by the Government of Meghalaya;

(2) For clause (5), the following clause shall be substituted, namely:—

"(5) 'Government' means the Government of Meghalaya;"

2. Section 18.—For sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:

(1) Any dealer objecting to an order passed under this Act by any person appointed under section 5 to assist the Commissioner, other than an order passed under this section, may, within thirty days from the date of service of such order, appeal to the Commissioner, against such order:

Provided that no appeal against an order of assessment or penalty shall be entertained by the Commissioner unless he is satisfied that the amount of tax assessed or penalty levied, if not otherwise directed by him, has been paid:

Provided further that the Commissioner before whom the appeal is filed may admit it after the expiration of thirty days, if he is satisfied that for reasons beyond the control of the appellant or for any other sufficient cause it could not be filed within time."

3. Section 19.—For section 19, the following section shall be substituted, namely:—

Revision by the Board.—"19. The Board may call for and examine the record of any proceeding under this Act, and if it considers that any order passed therein by any person appointed under section 5, is erroneous in so far as it is prejudicial to the interests of the revenue, it may, after giving the dealer an opportunity of being heard and after making or causing to be made such enquiry as it deems necessary, pass such orders thereon as the circumstances of the case justify, including an order enhancing or modifying the assessment, or cancelling the assessment and directing a fresh assessment."

4. Section 19A.—In sub-section (1), the words "or passed in revision under sub-section (1) of section 19" shall be omitted.

5. Section 44.—For the word "Government" wherever it occurs, the words State Government of Assam shall be substituted.

The Assam Finance (Sales Tax) Act, 1956 (Assam Act 11 of 1956)

1. Section 1.—For clause (1A), the following clause shall be substituted, namely:—

(1A) 'Board' means the Board of Sales Tax as constituted by the Government of Meghalaya."

2. Section 19.—For sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

(1) Any dealer objecting to an order passed under this Act by any person appointed under section 4 to assist the Commissioner, other than in order passed under this section, may, within thirty days from the date of service of such order, appeal to the Commissioner, against such order:

Provided that no appeal against an order of assessment or penalty shall be entertained by the Commissioner unless he is satisfied that the amount of tax assessed or penalty levied, if not otherwise directed by him, has been paid:

Provided further that the Commissioner before whom the appeal is filed may admit it after the expiration of thirty days, if he is satisfied

that for reasons beyond the control of the appellant or for any other sufficient cause it could not be filed within time"

3. **Section 20.**—For section 20, the following section shall be substituted, namely:—

Revision by the Board.—"20. The Board may call for and examine the record of any proceeding under this Act, and if it considers that any order passed therein by any person appointed under section 4, is erroneous in so far as it is prejudicial to the interests of the revenue, it may, after giving the dealer an opportunity of being heard and after making or causing to be made such enquiry as it deems necessary, pass such orders thereon as the circumstances of the case justify, including an order enhancing or modifying the assessment, or cancelling the assessment and directing a fresh assessment".

4. **Section 20A.**—In sub-section (1), the words "or passed in revision under sub-section (1) of section 20" shall be omitted.

5. **Section 29.**—In clause (c) of sub-section (3), for the words "this State or any other State Government", the words "the Government of Meghalaya or the State Government of Assam or any other State Government" shall be substituted.

6. **Section 39(1).**—The words "State Government" shall stand unmodified.

The Assam Purchase Tax, 1967 (Assam Act 19 of 1967)

1. **Section 2.**—For clause (1), the following clause shall be substituted, namely:—

"(1) 'Board' means the Board of Sales Tax as constituted by the Government of Meghalaya."

2. **Section 37.**—In sub-section (1), the reference to "State Government" shall stand unmodified.

3. **Section 40.**—For sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Any dealer objecting to an order passed under this Act by any person appointed under section 4 to assist the Commissioner, other than an order passed under this section, may, within thirty days from the date of service of such order, appeal to the Commissioner, against such order:

Provided that no appeal against an order of assessment or penalty shall be entertained by the Commissioner unless he is satisfied that the amount of tax assessed or penalty levied, if not otherwise directed by him, has been paid

Provided further that the Commissioner before whom the appeal is filed may admit it after the expiration of thirty days if he is satisfied that for reasons beyond the control of the appellant or for any other sufficient cause it could not be filed within time."

4. **Section 41.**—For section 41, the following section shall be substituted, namely:—

Revision by the Board.—"41. The Board may call for and examine the record of any proceeding under this Act, and if it considers that any order passed therein by any person appointed under section 4, is erroneous in so far as it is prejudicial to the interests of the revenue, it may, after giving the dealer an opportunity of being heard and after making or causing to be made such enquiry as it deems necessary, pass such orders thereon as the circumstances of the case justify, including an order enhancing or modifying the assessment, or cancelling the assessment and directing a fresh assessment."

5. **Section 42.**—In sub-section (1), the words, brackets and figures "or passed in revision under sub-section (1) of section 41" shall be omitted.

6. **Section 43.**—The reference to "State Government" shall stand unmodified.

[No. F. 1/20/70-SR.]

M. G. PIMPUTKAR, Spl. Secy..

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1970

सा० का० नि० 1988.—यतः असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 55 की उपधारा (1) में यह व्यवस्था की गई है कि असम सरकार द्वारा उद्गृहीत विद्युत के उपभोग या विन्ध्य पर कोई कर, जो संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 53 से संबद्ध हो, तथा माल के विन्ध्य या ऋय पर कोई कर जो उक्त सूची की प्रविष्टि 54 से संबद्ध हो, मेघालय (जिसके अन्तर्गत शिलांग नगर पालिका में समाविष्ट क्षेत्र नहीं है) वहाँ, की सरकार द्वारा संगृहीत किया जाएगा और मेघालय में किसी वित्तीय वर्ष में उद्गृहणीय ऐसे किसी कर की राशि असम की संवित निधि के भाग के रूप में न होकर मेघालय की संवित निधि के भाग के रूप में होगी।

और यतः ऊपर निर्दिष्ट करों के बारे में विधियाँ ऐसे उपवादों और उपांतरों के उद्देश्यधिन होंगी जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, धारा 55 की उपधारा (I) के उपबन्धों की प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट कर ;

अतः अब, उक्त धारा 55 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है. अर्थात् :—

- (1) यह आदेश असम कराधान विधियाँ (मेघालय) उपांतर आदेश, 1970 कहा जा सकेगा
- (2) यह अप्रैल 1970 के दूसरे दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- इस आदेश से संलग्न अनुसूची में वर्णित, मेघालय के स्वायत्त राज्य के सम्पूर्ण या किसी भाग में यथा प्रवृत्त असम विधियाँ असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 की धारा 55 की उपधारा (1) की प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची द्वारा निर्देशित उपवादों और उपांतरों के अध्वधीन प्रभावी होगी।
- इस आदेश के उपबन्ध जो पूर्वोक्त असम विधियों को इस प्रकार उपांतरित करने का प्रभाव रखते हैं जिससे उस रीति में जिससे, उस प्राधिकार में जिसके द्वारा, या उस विधि में जिसके अधीन या जिसके अनुसार कोई शक्तियाँ प्रयोक्तव्य हैं, परिवर्तन हो जाए, तो सम्यक् रूप से बनाई गई या जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, सुपुर्दगी, कुर्की उपविधि, नियम या विनियम या 2 अप्रैल 1970 से पूर्व किए गए किसी कार्य को अधिविध मान्य नहीं करेंगे, और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश सुपुर्दगी, कुर्की, उप विधि, नियम, विनियम या कार्य को उसी प्रकार उसी मात्रा में और उन्हीं परिस्थितियों में प्रतिसंहृत किया जा सकता है, उसमें फेरबदल किया जा सकता है, उसे अङ्कित किया जा सकता है मानों इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ होने के पश्चात् और ऐसे मामले को तब लागू उपबन्ध के अधीन और अनुसार बनाया गया होगा, जारी किया गया होता या किया गया होता।
- इस आदेश में समाविष्ट किसी बात से पूर्वोक्त असम विधियों के पूर्वतन प्रवर्तन या उनके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात या ऐसी विधियों के अधीन

पहले ही प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व या ऐसी विधियों की दृष्टि से विचार करते हुए पहले ही किया गया जो कार्य अपराध की श्रेणी में आता हो, उसकी बाबत किसी शक्ति, सम्पहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

(पैरा 2 देखें)

उपारार

क—साधारण

नीचे की सारणी स्तंभ 1 में वर्णित पद अभिव्यक्ति किसी नाम या उद्घाटिका या प्रोद्धारण या वर्णन में से अन्यथा) असम विक्रय कर अधिनियम, 1947 (1947 का असम अधिनियम 17), असम पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद जिन में मोटर स्परिट और एनेहक सम्मिलित है, का विक्रय) कराधान अधिनियम, 1955 (1956 का असम अधिनियम 9), असम वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1956 का असम अधिनियम 11।

असम विद्युत शुल्क अधिनियम, 1964 (1964 का असम अधिनियम 30) और असम त्रय-कर अधिनियम, 1967 (1967 का असम अधिनियम 19) या मेघालय के स्वायत्त राज्य के संपूर्ण या किसी भाग में यथाप्रवृत्त तद्धीन बनाए गये नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं में जब भी आए, तब जब तक कि वह पद अभिव्यक्ति इस आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा उपान्तरित किए जाने के लिए या उपान्तरित न किये जाने के लिए या लुप्त किये जाने के लिए निर्देशित नहीं की गई हो या जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि यह उक्त सारणी के स्तंभ 2 में इसके सामने की पद अभिव्यक्ति के प्रति निर्देश है।

सारणी

(1)

(2)

असम ("असम सरकार"

मेघालय

"असम के राज्यपाल"

"असम वित्त अधिनियम"

और "असम राज्य" पद अभिव्यक्ति में जहां भी आते हैं,
के सिवाय)

असम सरकार

मेघालय सरकार

(1)

(2)

असम के राज्यपाल

मेघालय के संबंध में राज्यपाल के रूप में
अपने कृत्यों को करने वाले असम के
राज्यपाल ।

असम राज्य

मेघालय का स्वायत्त राज्य ।

राज्य सरकार

मेघालय सरकार

राज्य ("राज्य सरकार", "अन्तराज्यिक" और "असम मघालय का स्वायत्त राज्य ।
राज्य" पद अभिव्यक्ति में जहां भी आते हैं, के सिवाय)

ख—विशेष

असम विक्रय कर अधिनियम, 1947. (1947 का असम अधिनियम, 17.)

1. धारा 2

(1) खंड (1 क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित
किया जाएगा, अर्थात्—

“(1क)” बोर्ड से मेघालय सरकार द्वारा यथा गठित
विक्रय कर बोर्ड अभिप्रेत रहे”

(2) खंड (6) में, “राज्य सरकार” शब्द उपांतरित
नहीं किए जाएंगे ।

2. धारा 3

(1) उपधारा (1), (2), (5) और (6) में “संपूर्ण
असम या असम के भीतर और बाहर दोनों में” शब्द
उपांतरित नहीं किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (4) के खंड (1) में और उपधारा के नीचे
दिये गये स्पष्टीकरण में “असम राज्य” शब्द उपांतरित
नहीं किए जाएंगे ।

3. धारा 4

उपधारा (2) “में राज्य सरकार” शब्द उपांतरित नहीं किए
जाएंगे ।

4. धारा 7

उपधारा (2) “में राज्य सरकार” शब्द उपांतरित नहीं किए
जाएंगे ।

5. धारा 15

खंड (1) के उपखंड (ख) की मद (1) (क) में “राज्य”
के प्रति निर्देश उपांतरित नहीं किए जाएंगे ।

6. धारा 27 . . . "राज्य" शब्द उपांतरित नहीं किया जाएगा ।
7. धारा 30 . . . उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1) आयुक्त की सहायता करने के लिए धारा 8 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश, जो इस धारा के अधीन पारित आदेश से भिन्न हो, पर आपत्ति करने वाला कोई व्यवहारी, ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा :—

परन्तु उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारण या शास्ति के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि निर्धारित कर या उद्ग्रहीत शास्ति की रकम, यदि उसके द्वारा अन्यथा निदेश न किया गया हो, संदत्त कर दी गई है :—

परन्तु यह और भी कि वह प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील फाइल की गई है उसे तीस दिन के अवसान के पश्चात् ग्रहण कर सकता है, यदि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से या किसी अन्य पर्याप्त कारण से इसे समय रहते फाइल नहीं किया जा सका ।”

8. धारा 31 . . . धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण “31 बोर्ड इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यावाही के कागजात मंगवा सकता है और उनकी जांच कर सकता है, और यदि वह यह समझे कि उसमें धारा 8 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पारित कोई आदेश, जहां तक वह राजस्व के हितों के प्रतिकूल हों, गलत है तो वह व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या कराने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित लगे, जिनमें निर्धारण में वृद्धि या उपांतर करने, या निर्धारण को रद्द करने और नया निर्धारण करने का निदेश देने का आदेश सम्मिलित है ।”

9. धारा 31 . . क—उपधारा (1) में “या धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित” शब्द, कोष्ठक और अंक सुप्त कर दिए जाएंगे ।
10. धारा 42 . . उपधारा (3) के खंड (ग) में “यह या कोई अन्य राज्य सरकार” शब्द अनुपांतरित रहेंगे ।
11. धारा 44 . . उपधारा (1) में “राज्य सरकार” के प्रति निर्देश अनुपांतरित रहेंगे ।
12. धारा 52 . . “राज्य सरकार” के प्रति निर्देश अनुपांतरित रहेंगे ।

असम (पेट्रोलियम का और पेट्रोलियम से तैयार की गई उन चीजों का विक्रय जिन में मोटर स्प्रिट और स्नेहक सम्मिलित हैं) कराधान अधिनियम, 1955-56 का असम अधिनियम 9

1. धारा 2 . . खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1) “बोर्ड” से मेघालय सरकार द्वारा यथा गठित विक्रय कर बोर्ड अभिप्रेत है ” ।

(2) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) सरकार से मेघालय सरकार अभिप्रेत है ” ;

2. धारा 18 . . उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1) आयुक्त को सहायता करने के लिए धारा 5 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश जो इस धारा के अधीन पारित आदेश से भिन्न हो, पर आक्षेप करने वाला कोई व्यवहारी, ऐसे आदेश को तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, आयुक्त को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा :—

परन्तु आयुक्त निर्धारण या शास्ति के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि उसकी यह समाधान न हो जाए कि निर्धारित कर या उद्गृहीत शास्ति की रकम यदि उसके द्वारा अन्यथा निर्देश न किया गया हो, अदा कर दी गई है :—

यह भी व्यवस्था कि वह प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील फाइल की गई है उसे तीस दिन के

अवसान के पश्चात् ग्रहण कर सकता है, यदि उसे यह समाधान हो जाए कि अपील करने बाल के नियंत्रण से बाहर के कारणों से या किसी अन्य पर्याप्त कारण से इसे समय रहते प्रस्तुत नहीं किया जा सका।”

3. धारा 19 . . . धारा 19 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण

“19 बोर्ड इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के कागजात मंगा सकता है और उनकी जांच कर सकता है, और यदि वह यह समझे कि उसमें धारा 5 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पारित कोई आदेश, जहां तक वह राजस्व के हितों के प्रतिकूल हो, गलत है तो वह, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या कराने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित लगे, जिसमें कि निर्धारण में वृद्धि या उपांतर करने, या निर्धारण को रद्द करने और निर्धारण करने का निदेश देने का आदेश सम्मिलित है।”

4. धारा 19क. . . उपधारा (1) में “या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित” शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे।

5. धारा 44 . . . “सरकार” शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी यह शब्द आया हो, “असम की राज्य सरकार” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

असम वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1956 (1956 का असम अधिनियम)

1. धारा 1 . . . खण्ड (1क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1क) बोर्ड से मेधालय सरकार द्वारा यथा गठित विक्रय-कर बोर्ड अभिप्रेत है”

2. धारा 19 . . . उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1) आयुक्त की सहायता करने के लिए धारा 4 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश, जो इस धारा के अधीन पारित

आदेश से भिन्न हो, पर आक्षेप करने वाला कोई व्यवहारी ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा :

परन्तु निर्धारण या शास्ति के किसी आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील आयुक्त द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसको यह समाधान न हो जाए कि निर्धारित कर या उद्गृहीत शास्ति की रकम, यदि उसके द्वारा अन्यथा निदेश न किया गया हो भदा कर दी गई है :—

यह भी व्यवस्था की जाती है कि वह प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है उसे तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण कर सकता है यदि उसे यह समाधान हो जाए कि अपीलकर्ता के नियंत्रण के बाहर के कारणों से या किसी अन्य पर्याप्त कारण से इसे समय रहते प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।”

3. धारा 20 . . . धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण . . . “20 बोर्ड इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के कासाज्रात मंगा सकता है और उनकी जांच कर सकता है और यदि वह यह समझे कि धारा 4 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पारित कोई आदेश, जहां तक वह राजस्वों के हितों के प्रतिकूल हो, गलत है तो वह व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच, करने या कराने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित लगें, जिनमें निर्धारण में वृद्धि या उपान्तर करने या निर्धारण को रद्द करने और नया निर्धारण करने का निदेश देने का आदेश सम्मिलित है”

4. धारा 20क . . . उपधारा (1) में “या धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित” शब्द लुप्त कर दिए जायेंगे ।

5. धारा 29 . . . उपधारा (3) के खण्ड (ग) में “यह राज्य या कोई अन्य राज्य सरकार” शब्द के स्थान पर “मेघालय सरकार या असम की राज्य सरकार या कोई अन्य राज्य सरकार” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

6. धारा 39 (1) . . . “राज्य सरकार” शब्द अनुपान्तरित रहेंगे

असम क्रय कर अधिनियम, 1967 (1967 का असम अधिनियम)

1. धारा 2 . खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1) बोर्ड से मेघालय सरकार द्वारा यथा-गठित विक्रय-कर बोर्ड अभिप्रेत है।”
2. धारा 37 जपधारा(1) में, “राज्य सरकार” के निर्देश अनुपांतरित रहेंगे।
3. धारा 40 . उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1) आयुक्त की सहायता करने के लिए धारा 4 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश, जो इस धारा के अधीन पारित आदेश से भिन्न हो, पर आक्षेप करने वाला कोई व्यवहारी ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा :—
परन्तु आयुक्त द्वारा निर्धारण या शास्ति के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि निर्धारित कर या उद्गृहीत शास्ति की रकम, यदि उसके द्वारा अन्यथा निदेश न किया गया हो, अदा कर दी गई है :—
यह भी व्यवस्था की जाती है कि आयुक्त जिसके समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है उसे तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण कर सकता है, यदि उसे यह समाधान हो जाए कि अपील कर्ता के नियंत्रण से बाहर के कारणों से या किसी अन्य पर्याप्त कारण से इसे समय रहते प्रस्तुत नहीं किया जा सका।”
4. धारा 41 धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण “41 बोर्ड इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के कागजात मंगा सकता है और उनकी जांच कर सकता है और यदि वह समझे कि उसमें धारा 4 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पारित कोई आदेश, जहां तक वह राजस्व के हितों के प्रतिकूल हो, गलत है तो वह, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या कार्रवाई करने के पश्चात् जैसी कि

वह आवश्यक समझे उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे मामले की परिस्थितियों में त्वायोचित लगे, न निर्धारण में वृद्धि या उपान्तर करने या निर्धारण को रद्द करने और नया निर्धारण करने का निदेश देने का आदेश सम्मिलित है ।”

5. धारा 42 उपधारा (1) में, “या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन पुनरोक्षण में पारित” शब्द, कोष्ठक और अंक लुप्त कर दिए जाएंगे ।
6. धारा 43 राज्य सरकार के निर्देश अनुपांतरित रहेंगे ।

[सं० फ० 1/20/79-एस० आर०]

मो० ग० पिम्पूटकर, विशेष सचिव ।